

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 12-10-2020

100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ चार महिलाए गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में शराब व शराबियों के रोकथाम हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के मार्ग दर्शन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कैंपट महोदय के नेतृत्व में थाना खोराबार में प्र०नि० श्री नासिर हुसैन व उनकी टीम को लगाया था। आज दिनांक 12/10/2020 को प्र०नि० खोराबार को सूचना मिली कि जंगल अयोध्या प्रसाद टोला मड़हला थाना खोराबार गोरखपुर में कुछ महिलाए एक कच्चे मकान के पिछे नाजायज कच्ची शराब बना रही है। इस सूचना पर विश्वास करके प्र०नि० खोराबार द्वारा अपनी टीम को साथ लेकर जंगल अयोध्या प्रसाद मड़हला पहुँचे जहाँ पर चार महिलाये शराब की भट्टी द्वारा अवैध कच्ची शराब बना रही थी। जिन्हे घेरघार कर महिला कांस्टेबल की मदद से पकड़ लिया गया। पकड़ी गयी महिलाओ का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम- (1) राजमती पत्नी स्व० बासदेव उम्र करीब 40 वर्ष (2) फोटो पत्नी बाबु उम्र करीब 30 वर्ष (3) रितू पत्नी पप्पु उम्र करीब 30 वर्ष (4) शान्ती देवी पत्नी सुग्रीव उम्र करीब 40 वर्ष निवासीगण जंगल अयोध्या प्रसाद टोला मड़हला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर बताया। भट्टी के आस पास तलाश किया गया तो दो प्लास्टिक के पिपिया में करीब 20-20 लीटर तरल पदार्थ, तीन प्लास्टिक के वाल्टी में भी करीब 20-20 लीटर तरल पदार्थ एक प्लास्टिक के बोरे में करीब 05 किग्रा० यूरिया व एक प्लास्टिक के पन्नी में 01 किग्रा नौसादर तथा 04 प्लास्टिक के बोरे में करीब 200 किग्रा लहन बरामद हुआ। पकड़ी गयी महिलाओ के शराब बनाने के अधिकार पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सकी। उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 743/2020 धारा 60/63 आबकारी अधि० व धारा 272 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता:-

- (1) राजमती पत्नी स्व० बासदेव निवासी जंगल अयोध्या प्रसाद टोला मड़हला थाना खोराबार
- (2) फोटो पत्नी बाबु निवासी जंगल अयोध्या प्रसाद टोला मड़हला थाना खोराबार
- (3) रितू पत्नी पप्पु निवासी जंगल अयोध्या प्रसाद टोला मड़हला थाना खोराबार
- (4) शान्ती देवी पत्नी सुग्रीव निवासी जंगल अयोध्या प्रसाद टोला मड़हला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान:- दिनांक 12.10.2020 समय 05.05 बजे, मड़हला जंगल अयोध्या प्रसाद

- बरामदगी-
1. शराब -100 लीटर अवैध शराब
 2. यूरिया -5 किमी
 3. नौसादर -1 किमी
 4. लहन - 200 किग्रा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी / कर्म० का नाम व नियुक्ती स्थान

1. प्र०नि० श्री नासिर हुसैन, थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० श्री रविसेन यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. उ०नि० श्री पंकज कुमार सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. म०का० आस्था सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
5. म०का० साक्षी रावत थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
6. म०का० अंकिता सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
7. म०का० प्रतिमा सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
8. म०का० ज्योति सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
9. म०का० अनामिका थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
10. म०का० पूजा भारती थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
11. का० मुकेश कुमार सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर